



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 अग्रहायण 1938 (श10)
(सं० पटना 1019) पटना, मंगलवार, 29 नवम्बर 2016

सं० वि०2-51/99-1056/वि०

वित्त विभाग

संकल्प

17 नवम्बर 2016

विषय :- बिहार सामान्य भविष्य निधि/ अंशदायी भविष्य निधि के अभिदाताओं के खाता में संचित राशि पर केन्द्र सरकार के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान दिनांक 01 अक्टूबर, 2016 से 31 दिसम्बर, 2016 तक की अवधि के लिए ब्याज दर 8.0% (आठ प्रतिशत) किये जाने के सम्बन्ध में ।

वित्त विभाग के संकल्प संख्या-818 दिनांक 09.09.2016 द्वारा सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि में वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान दिनांक 01.07.2016 से 30.09.2016 तक की अवधि हेतु केन्द्र सरकार के अनुरूप ब्याज दर 8.1% (आठ दशमलव एक प्रतिशत) लागू किया गया था ।

2. भारत सरकार वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) के संकल्प संख्या-5(1)-बी(पी.डी)/2016 दिनांक 03.10.2016 के द्वारा सामान्य भविष्य निधि तथा उसी प्रकार की अन्य निधियों के अभिदाताओं की कुल जमा रकमों पर वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान दिनांक 01 अक्टूबर, 2016 से 31 दिसम्बर, 2016 तक के लिए ब्याज की दर 8.0% (आठ प्रतिशत) निर्धारित की गयी है ।

3. अतः सरकार के निर्णयानुसार अभिदाताओं के सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि खाते में संचित राशि पर वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान दिनांक 01 अक्टूबर, 2016 से 31 दिसम्बर, 2016 तक की अवधि के लिए ब्याज दर 8.0% (आठ प्रतिशत) लागू होगा ।

4. पटना उच्च न्यायालय/ बिहार विधान परिषद्/बिहार विधान सभा के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के अंशदान की राशि पर ब्याज के उक्त दर के निर्धारण के सम्बन्ध में माननीय मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, पटना/ माननीय सभापति, बिहार विधान परिषद्/माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा का अनुमोदन प्राप्त कर संबंधित कार्यालय/सचिवालय द्वारा आदेश निर्गत किया जायेगा ।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प का प्रकाशन बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में किया जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राहुल सिंह,
सचिव (व्यय) ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1019-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>